



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22012024-251558  
CG-DL-E-22012024-251558

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 22, 2024/माघ 2, 1945

No. 50]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 22, 2024/MAGHA 2, 1945

वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 56(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का-निर्माण (स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सिक्के का मूल्यवर्ग.- स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी के अवसर पर केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए एक साल में एक सौ रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का ढाला जाएगा।

3. सिक्के की विमाएं और संरचना.- नियम 2 में उल्लिखित मूल्य वर्ग के सिक्के, निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात् :-

सिक्के का मूल्यवर्ग	आकार और बाह्य व्यास	दांतेदारों किनारे की संख्या	धातु संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	चतुर्थक मिश्र धातु चांदी- 50 प्रतिशत तांबा- 40 प्रतिशत निकिल- 05 प्रतिशत जस्ता- 05 प्रतिशत

4. डिज़ाइन.- सिक्के का डिज़ाइन इन नियमों की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होगा।

5. मानक वजन और अनुज्ञात उपचार.- स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए नियम 2 में निर्दिष्ट मूल्य वर्ग के ढाले गए सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्के को बनाने में अनुज्ञात उपचार वह होगा जो इन नियमों की दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

#### प्रथम अनुसूची

[नियम 4 देखें]

एक सौ रुपये

अग्र भाग:

सिक्के के मुख भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह शीर्ष होगा, जिसके नीचे “सत्यमेव जयते” लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में “भारत” शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में “INDIA” शब्द होगा। सिंह स्तम्भ शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक “₹” और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य “100” भी होगा।

पृष्ठ भाग:

सिक्के के इस भाग के मध्य में श्री कर्पूरी ठाकुर का चित्र होगा। सिक्के की उपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में “स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी” लिखा होगा और सिक्के की निचली परिधि पर अंग्रेजी में “BIRTH CENTENARY OF LATE SHRI KARPOORI THAKUR” वर्णित होगा। श्री कर्पूरी ठाकुर के चित्र के नीचे अंतर्राष्ट्रीय अंको में वर्ष “2024” लिखित होगा।

#### दूसरी अनुसूची

[नियम 5 देखें]

सिक्के का मूल्यवर्ग	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		धातु संयोजन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ रुपये	35 ग्राम	चांदी के लिए 1/500वां हिस्सा जमा या घटा अर्थात् चांदी का अंश प्रति 1000 में 498 से 502 के बीच हो सकेगा।	1/100वां हिस्सा जमा या घटा अर्थात् वजन 34.65 ग्राम से 45.35 ग्राम तक हो सकता है।

[फा. सं. 02/02/2024 -सिक्का]

अपर्णा भाटिया, सलाहकार

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Economics Affairs)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd January, 2024

**G.S.R. 56(E).**— In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011 (11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

**1. Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of the Birth Centenary of Late Shri Karpoori Thakur) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Denomination of coin.**- The coin of one hundred rupees denomination shall be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government on the occasion of the Birth Centenary of Late Shri Karpoori Thakur.

**3. Dimension and composition of coin.**- The coin of the denomination mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely: -

Denomination of coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Rupees	Circular 44 millimetre	200	<b>Quaternary Alloy</b> Silver - 50 per cent. Copper - 40 per cent. Nickel - 05 per cent. Zinc - 05 per cent.

**4. Design.**- The design of the coin shall be as specified in the First Schedule to these rules.

**5. Standard weight and remedy allowed.**- The standard weight of the coin of denomination referred in rule 2 shall be coined to commemorate on the occasion of the Birth Centenary of Late Shri Karpoori Thakur and the remedy allowed in making of such coin shall be as specified in the Second Schedule to these rules.

**THE FIRST SCHEDULE**

[See rule 4]

**ONE HUNDRED RUPEES**

**OBVERSE:**

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Devnagari script and on the right periphery with the word “INDIA” in English. It shall also bear the Rupee symbol “₹” and denominational value “100” in the international numerals below the Lion Capitol.

**REVERSE:**

This face of coin shall bear the portrait of Shri Karpoori Thakur in the centre of the coin. The inscription “स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी” shall be written in Devnagari script on the upper periphery and the inscription “BIRTH CENTENARY OF LATE SHRI KARPOORI THAKUR” in English is depicted on the lower periphery of the coin. The year “2024” in international numeral shall be written below the portrait of Shri Karpoori Thakur.

**THE SECOND SCHEDULE**

[See rule 5]

Denomination of coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Rupees	35 Grams	1/500 <sup>th</sup> plus or minus for Silver, that is to say the Silver content may vary from 498 to 502 per 1000.	1/100 <sup>th</sup> plus or minus, that is to say weight could be 34.65 grams to 35.35 grams.

[F. No. 02/02/2024 - Coin]

APARNA BHATIA, Adviser